




Shri Vishwakarma Skill University

State University enacted under Government of Haryana Act. 25, 2016)

APPLICATION FORM

1. Course Name: _____
2. Name of the Candidate: Mr./Ms. _____
(As per Matriculation certificate) in Capital letters
3. Father's Name: Sh. _____
(As per Matriculation certificate) in Capital letters
4. Mother's Name: Smt. _____
(As per Matriculation certificate) in Capital letters
5. Date of Birth: ___ / ___ / _____ 5. Gender: Male/Female _____
6. Nationality: _____ 7. Religion: _____
8. Aadhaar No (Desirable): _____ 9. Contact No.: _____
10. Category: _____ (Gen./BC-A/BC-B/SC) (HARYANA)/AIC/J&K migrant/Dudhola domicile
11. Correspondence Address: _____
12. Person with Disabilities(DA/PwD)(Yes/No): _____
13. Belongs to any minority category(Yes/No) _____ (If yes, please specify): _____
14. Qualifying examination passed (Details of examination): _____ From (Haryana/Other state) _____
District: _____ Year of pass _____
15. Haryana Domicile (Yes/No): _____



16. Qualification Details:

| Sr. No. | Examination | Board/ University | Passing (Year & Month) | Subject/Trade/Specialization | % of Marks/ Grade/CGPA |
|---------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 01 | 10 th | | | | |
| 02 | 10+2 | | | | |
| 03 | Diploma | | | | |



Shri Vishwakarma Skill University

State University enacted under Government of Haryana Act. 25, 2016)

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|
| 04 | Others (Any) | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|

Date:

Candidate Signature

Place:

Candidate Name:

आवेदन पत्र

पाठ्यक्रम का नाम: _____

उम्मीदवार का नाम: _____

(हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

पिता का नाम: श्री _____

(हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

माता का नाम: श्रीमती _____

जन्म तिथि __/__/_____

लिंग: पुरुष/ महिला _____

राष्ट्रीयता: _____

धर्म: _____

श्रेणी: _____ (Gen./BC-A/BC-B/SC) (HARYANA)/AIC/J & K प्रवासी/Dudhola

आधार सं (वांछनीय): _____

संपर्क नं.: _____

पत्राचार पता: _____

विकलांग व्यक्ति के साथ _____ (डीए/पीडब्ल्यूडी) (Yes/No): _____

किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आता है (हां/_____ (यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें): _____



Shri Vishwakarma Skill University

State University enacted under Government of Haryana Act. 25, 2016)

17. Qualifying examination passed (Details of examination): _____ From (Haryana/Other state) _____
District: _____ Year of pass _____

18. Haryana Domicile (Yes/No): _____

19. Qualification Details:

| Sr. No. | Examination | Board/ University | Passing (Year & Month) | Subject/Trade/Specialization | % of Marks/ Grade/CGPA |
|---------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 01 | 10 th | | | | |
| 02 | 10+2 | | | | |
| 03 | Diploma | | | | |
| 04 | Others (Any) | | | | |

Date:

Candidate Signature

Place:

Candidate Name: